Manufacturers of Artificial Leather/PVC Vinyl

Ref.: MUL/SEC/2020-21/146

Date: January 21, 2021

BSE Limited Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001 Scrip Code: 522249 National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block-G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051 Trading Symbol: MAYURUNIQ

<u>Subject:</u> Buy Back of upto 7,50,000 Equity shares of Mayur Uniquoters Limited ("the Company") through Tender Offer in terms of SEBI (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 and subsequent amendments thereto.

#### Dear Sir/Madam,

Please find attached herewith the copy of the public announcement published in all editions of Business Standard (English), Business Standard (Hindi) and Mridul Patrika (Hindi), Jaipur edition, in today's Newspaper i.e. January 21, 2021.

Kindly take the same on record.

Thanking You,

For Mayur Uniquoters Limited

Rahul Joshi

Company Secretary and Compliance Officer

Membership No. A33135

Encl: As above

A Texture For

Pursuant to the Regulation 29 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the January 28 2021, inter-alia, to consider and approve the Un-Audited Standalone Financial Results fo guarter and nine months ended December 31, 2020.

his information is also available on the website of the Company i.e. www.touchwood.ir and the website of the National Stock Exchange of India Ltd (i.e. www.nseindia.com), the Stock Exchange where the Company's shares are listed

Place : New Delhi



Air India Ltd. (AIL) invites Online Bids against Tender No. BEDP/33/56 dated 25/07/2020 for IT Support Services for AIL and its Subsidiaries in Western

Region. The Close date of Tender is 8 February 2021, 04:00 PM. The prospective bidders should regularly visit the Air India Website for any amendment issued till the close date of the tender. For other details the document can be downloaded from www.airindia.in

#### MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

Maniit Singh

Managing Director

Corporate Identification Number (CIN): L18101RJ1992PLC006952 Registered Office & Works: Village: Jaitpura, Jaipur-Sikar Road, Tehsii: Chomu, Jaipur-303704, Rajasthan I Tel No.: 01423-224001 Corporate Office: 28, 4th Floor, Lakshmi Complex, M.I. Road, Jaipur – 302001, Rajasthan I Tel. No.: 0141-2361132 Contact Person: Mr. Rahul Joshi, Company Secretary and Compliance Officer Email: secr@mayur.biz | Website: www.mayuruniquoters.com

POST BUY BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

This public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 as amended from time to time (the "Buyback Regulations") This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated November 11, 2020 published on November 12, 2020 (the "Public Announcement") and the Letter of Offer dated December 17, 2020 (the "Letter of Offer"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer

#### 1. THE BUY BACK

- 1.1 Mayur Uniquoters Limited (the "Company") had announced the Buyback of up to 7,50,000 (Seven Lakh Fifty Thousand) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 5/- (Rupees Five Only) each ("Equity Shares") from the existing shareholders/beneficial owners of Equity Shares holding Equity Shares as on the Record Date (i.e. November 25, 2020), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route through the Stock Exchange mechanism, as prescribed under the Buyback Regulations, at a price of Rs. 400/- (Rupees Four Hundred Only) per Equity Share payable in cash, for an aggregate amount of Rs. 30,00,00,000/- (Rupees Thirty Crores Only), excluding Transaction Cost ("Buyback Size"). The Buyback Size constituted 5.13% and 5.12% of the paid-up equity share capital and free reserves as per the latest standalone and consolidated audited balance sheet of the Company, respectively, for the financial year ended March 31, 2020 and was within the statutory limit of 10% under the Companies Act, 2013 (the "Act") and represents 1.65% of the total number of equity shares in the total paid-up equity share capital of the Company
- The Company has adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular CIR/CFD/ POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, including any amendments or statutory modifications for the time being in force
- The Buy Back Offer was kept open from Wednesday, December 30, 2020 to Tuesday, January 12, 2021
- 7,50,000 (Seven Lakh Fifty Thousand) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of Rs. 400/- (Rupees Four Hundred
- The total amount utilized in the Buyback is Rs.30,00,00,000/- (Rupees Thirty Crores Only), excluding Transaction Cost.
- The Registrar to the Buy Back i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limited("Registrar"), considered 12,012 valid applications for 54,60,191 Equity Shares in response to the Buy Back offer resulting in the subscription of approximately 7.28 times The details of valid applications considered by the Registrar, are as follows:

Category	No. of Equity Shares Reserved in the Buyback	No. of Valid applications	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
Reserved category for Small Shareholders	1,12,500	10,772	11,36,694	1010.39%
General Category for all otherEquity Shareholders	6,37,500	1,240	43,23,497	678.20%
Total	7,50,000	12,012	54,60,191	728.03%

- All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection will be dispatched by the Registrar to the eligible Equity Shareholders on or before January 22, 2021 (by email where the email id is registered with the Company or the depository).
- 2.5 The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited on January 20, 2021. The Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If the Eligible Shareholders bank account details were not available or if the funds transfer instruction was rejected by Reserve Bank of India/Relevant Bank, due to any reason, such funds were transferred to the concerned Shareholder Brokers settlement bank account for onward transfer to such
- 2.6 Demat Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company demat account on January 20, 2021. The unaccepted demat Equity Shares have been returned to the respective Eligible Shareholders by Clearing Corporations on January 20, 2021.
- The extinguishment of 7,50,000 Equity Shares accepted under the Buy Back, all of which are in dematerialized form, is currently under
- The Company, and its respective directors, accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
- The capital structure of the Company, pre and post Buy Back is as under

Sr. No.	Particulars	Pre Buyback (As on the Record Date)		Post Buyback <sup>(1)</sup>		
		No. of Shares	Amount (Rs. Lacs)	No. of Shares	Amount (Rs. Lacs)	
1.	Authorized Share Capital	5,00,00,000 Equity Shares of Rs. 5/- each	2500.00	5,00,00,000 Equity Shares of Rs. 5/- each	2500.00	
		15,25,000 Compulsory Convertible Participating Preference Shares of Rs. 400/- each	6100.00	15,25,000 Compulsory Convertible Participating Preference Shares of Rs. 400/- each	6100.00	
		Total	8600.00	Total	8600.00	
2.	Issued, Subscribed and Paid up Capital	4,53,27,600 Equity Shares of Rs. 5/- each	2266.38	4,45,77,600 Equity Shares of Rs. 5/- each	2228.88	
		Total	2266.38	Total	2228.88	

(1) Subject to extinguishment of 7,50,000 (Seven Lakh Fifty Thousand) Equity Shares

3.2 Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted

Sr. No.	Name of Shareholder	Number of Equity Shares accepted under the Buyback	as a % of total Equity	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares <sup>(1)</sup>
1.	Suresh Kumar Poddar	2,36,225	31.50	0.53
2.	Manav Poddar	1,09,233	14.56	0.25
3.	Suresh Kumar Poddar and Sons (HUF)	46,695	6.23	0.10
4.	Kotak Funds - India Midcap Fund	25,459	3.39	0.06
5.	Malabar India Fund Limited	18,030	2.40	0.04
6.	Puja Poddar	10,827	1.44	0.02
7.	Bengal Finance & Investment Pvt. Ltd	9,886	1.32	0.02
8.	Kiran Poddar	9,374	1.25	0.02
9.	Arun Kumar Bagaria	8,277	1.10	0.02

(1) Subject to extinguishment of 7,50,000 (Seven Lakh Fifty Thousand) Equity Shares

3.3 The Shareholding Pattern of the Company, pre and post Buyback, is as under

Category of Shareholder		e Buyback he Record Date)	Post Buyback(1)	
	Number of Shares	% to the existing Equity Share capital	Number of Shares	% to post Buyback Equity Share capital
Promoters and persons acting in concert (collectively "the Promoters")	2,78,67,239	61.48	2,74,40,664	61.56
Foreign Investors (Including Non-Resident Indians, FIIs, FPIs, Foreign Mutual Funds)	36,76,537	8.11	1,71,36,936	38.44
Financial Institutions/Banks & Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	5,49,340	1.21	1,71,00,000	50.44
Others (Public, Public Bodies Corporate, etc.)	1,32,34,484	29.20		
Total	4,53,27,600	100.00	4,45,77,600	100.00

(1) Subject to extinguishment of 7,50,000 (Seven Lakh Fifty Thousand) Equity Shares

#### MANAGER TO THE BUYBACK OFFER



CHARTERED CAPITAL AND INVESTMENT LIMITED 418-C, "215 Atrium", Andheri Kurla Road. Andheri (East). Mumbai 400 093

Contact Person: Mr. Amitkumar Gattani Tel No.: 022-66924111/6222

Email Id: mumbai@charteredcapital.net Website: www.charteredcapital.net

SEBI Registration No: INM000004018 | Validity: Permanent Corporate Identity Number: L45201GJ1986PLC008577

5. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

5.1 As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors accepts full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and for the information contained in all other advertisements, circulars, brochures, publicity materials etc. which may be issued in relation to the Buyback and confirms that the information in such documents contains and will contain true, factual and material information and does not and will not contain any misleading information

For and on behalf of the Board of Directors of Mayur Uniquoters Limited

Suresh Kumar Poddar Chairman and Managing Director & CEO DIN: 00022395

Arun Kumar Bagaria Whole Time Director DIN: 00373862

Rahul Joshi Company Secretary and Compliance Officer M. No: ACS33135

Date: Wednesday, January 20, 2021



# Ola to build ₹2,400-cr EV hub with Siemens

To set up global Al-powered facility in Tamil Nadu, according to a prior deal

NEHA ALAWADHI New Delhi, 20 January

la on Wednesday said it had tied up with Siemens to build its upcoming electric vehicles (EV) manufacturing facility in Tamil Nadu. The announcement comes after the mobility firm announced a ₹2,400-crore deal with the Tamil Nadu government last month to set up its first factory in the state.

The manufacturing factory will generate almost 10,000 jobs and have an initial capacity of 2 million units a year, Ola said in a statement.

It will serve as Ola's global manufacturing hub, catering to its customers in India as well as key markets across Europe, the UK, Latin America as well as Australia and New Zealand, it added.

Ola's factory will have almost 5,000 robots deployed across various functions. The mobility firm will have access to Siemens' integrated digital twin design and manufacturing solutions. This will help digitalise and validate product and production ahead of actual operations.

"This will be our global hub and set a benchmark in quality, scale and efficiency, demonstrating India's capability to build world class cutting-edge products. We look forward to bringing this gence-powered with Ola's proprietary AI



#### **MEGA EV UNIT**

- Factory to generate 10,000 jobs
- Will start with 2 mn units a year
- To deploy around 5,000 robots

factory online in the coming months and putting our products in the hands of customers," said Bhavish Aggarwal, chairman and group chief executive. Ola.

The factory will be artificial intelli-

Engine and tech stack continuously selflearning and optimising every aspect of the manufacturing process

The entire material handling at Ola's factory will be fully automated for maximum efficiency, right from raw materials, to material movement inside the factory, to storage and the finished scooter rolling off production lines and being loaded onto trucks

"Siemens is proud to contribute to Ola's vision of creating a factory of the future using its automation and digitalisation expertise. This will ensure the highest levels of productivity and quality while enabling an agile and flexible production process," said Sunil Mathur. managing director and chief executive. Siemens India.

Ola's upcoming scooter is the first in its range of electric vehicles. The factory in Tamil Nadu will produce Ola's upcoming line of two-wheelers, starting with the e-scooter.

The scooter has seamless design and a unique removable banana battery that is easy to carry and can be charged anywhere. It is also equipped with intelligent software that boosts consumer experience. The company plans to bring many such design and software innovations to its entire two-wheeler product portfolio. Ola was last valued at \$6 billion.

# Tesla faces bumpier ride in India after success in China

**RAGINI SAXENA, BRUCE EINHORN &** CHUNYING ZHANG

20 January

India, sparking jubilation have had its electric cars on order for years. But it may prove the company's hardest market to crack yet.

On January 13, Musk tweeted "as promised" in response to a report on a Teslafocused blog that the firm was in talks with Indian states to open an office, showrooms, a research and development centre — and possibly a factory.

'It's really happening," said Nikhil Chaudhary, a 20-yearold student at the University of Tesla fan club in early 2019, adding he "went crazy" when he heard the news. Arun Bhat, 34, a company director in of China committed to spend-Bengaluru, said at last there's ing 2.7 billion yuan (\$416 milhope that he'll get the Tesla lion) on charging stations in Model 3 he ordered in 2016.

ray into India is far from a done deal. Tesla is in discus- yuan on charging infra over means even Tesla's most sions with state officials but is yet to decide on an Indian after several years of heavily base, according to the Tesmanian blog post that trig-chases to kick start the market. gered Musk's response.

Beijing declined to comment. programmes won't do much to India hasn't rolled out the

welcome mat for electric vehicles (EVs), unlike China, where Tesla set up its first factory outside of the US and now dominates electric-car sales.

cent of China's annual car sales, according to BloombergNEF, compared to less than 1 per cent in India. According to the yuan, or around \$40,960. With International Energy Agency, around 60 per cent of the world's public slow- and fast- in India would put it beyond

charging spots are in China. India has been making

moves but they're not on the same scale. In 2015, it launched Last week Elon Musk all but a Faster Adoption and confirmed Tesla will enter Manufacturing of Hybrid and EV (FAME) plan, with a ₹900 among fans, some of whom crore commitment to subsidies that cover everything from electric tricycles to buses, according to the IEA. A second generation of the FAME programme introduced in 2019 was larger, with ₹10,000 crore to encourage EV purchases and

build out charging infra. India also cut the goods and THE CHALLENGES services tax on EVs to 5 per cent from 12 per cent, effective August 2019, much lower than the levies of as much as 28 per cent slapped on other motor vehicles, which have attracted Delhi who helped start India's criticism from companies like Toyota Motor.

But contrast that to China, where utility State Grid Corp. it planned to invest 25.1 billion four years. Those outlays come subsidising consumer EV pur-

Cost will also be a major A Tesla representative in stumbling block. India's FAME help lower the price for wouldbe Tesla customers, since the upper limit for an EV to qualify for subsidies is ₹15 lakh. Teslas will cost more than that and, therefore, won't be eligible. EVs account for about 5 per according to BNEF analyst Allen Tom Abraham.

An entry-level China-built Tesla Model 3 starts at 265,740 export expenses on top of that, the sticker on a Tesla retailed



- Lower subsidies for electric vehicles sector
- Even the cheapest model to be too costly for most
- Smaller electic vehicle market than China

the reach of most drivers. About 75 per cent of all Indian auto sales occur in the \$10,000 and under bracket, 2020 alone. State-owned China about half the average price in For all the hype, Tesla's Southern Power Grid Co. said China and just 25 per cent of affordable car will likely appeal to only about 1 per cent of the market, Abraham said. "The volumes they can expect in a market like India will be really, really small," he said.

Still, the Indian EV market is growing and could be worth almost \$206 billion in the coming decade, according to a study by the CEEW Centre for Energy Finance, which noted an investment of more than \$180 billion would be required by 2030 to achieve that.

India, a product with a small market share could turn out to be worthwhile for Tesla, especially given the company's strong brand awareness among he said.

affluent and environmentally conscious Indians. According to Rajeev Singh,

a partner and automotive leader at Deloitte India, Tesla is already a well-known name "there's a pull from the brand perspective" - and India's luxury car segment is also poised to grow by around 15 per cent over five to seven years, about double that of the total market, Deloitte forecasts.

While it's unclear how seriously Musk is thinking about the prospect of one day making cars in India th ernment is reportedly trying to lure big manufacturers, and Tesla would be the ultimate catch — like it was for China. The government is plan-

ning to offer about ₹1.7 trillion in incentives to attract global firms to set up manufacturing. India has had some success, with about 24 firms including Samsung, Foxconn, and

Wistron pledging to establish mobile-phone factories. Teslas, however, are likely to be imported, at least initially. Even an enthusiast like

And in a country as large as Bhat, who currently drives a Hyundai Kona EV, is realistic about the challenges.

"Until there's a local plant, it will be a niche product,'

## Allegation about preferred sellers wrong: Amazon's lawyer tells HC

PEERZADA ABRAR

Bengaluru, 20 January

The Competition Commission of India's probe into Amazon is phone brands and deep dison the premise that the firm is running an inventory-based model of e-commerce, but in reality, it is a market-based model of online retail, Senior as the "gospel truth" by the Advocate Gopal Subramanium CCI without seeing the argued before the Karnataka High Court on Wednesday.

"The allegation that we (Amazon) have preferred sellers, is completely wrong," Subramanium said, according to the law platform Bar & Bench. "There is no direct relaseller. I am only a market place." The court is hearing the

petition filed by the CCI for probe against e-commerce firms Amazon and Flipkart. Delhi Vyapar Mahasangh

against the e-commerce company. These included Amazon having exclusivity deals with counting related to products and predatory pricing.

court that this has been taken material. The Confederation

(CAIT) had also alleged that Amazon has a direct relationship with seller Cloudtail and was preferring it.

of All India Traders

Subramanium told the court tionship between me or any that there is no material to show seller. The brand chooses the that any seller was precluded or prevented from having access to any particular brand. He said various brands such as Vivo, Xiaomi, and Samsung witnessed growth in volumes of

had raised many allegations and online marketplaces. He said the discount is offered by the seller and not Amazon. The matter will be heard

> next on January 21. The Supreme Court (SC) in

October had declined to enter-Subramanium informed the tain the petition filed by the CCI seeking to remove Karnataka High Court's stay on an investigation that the

watchdog had ordered against Amazon and Flipkart related to anti-competitive business practices.

This is because the matter had gone back to the Karnataka High Court. The SC had asked the Karnataka High Court to decide on the CCI plea for vacating the stay on the probe against Amazon and Flipkart for alleged anti-competitive practices. It had asked the High Court to decide within products, both in the offline a period of six weeks.

#### Flipkart's stake buy in Aditya Birla Fashion gets CCI nod

The Competition Commission of India (CCI) has approved the acquisition of a 7.8 per cent minority stake in Aditya Birla Fashion and Retail by Flipkart Investments.

Flipkart and Aditya Birla Fashion had formed a strategic partnership in October last year. Through an investment of ₹1,500 crore, Flipkart Investments had said it will acquire about 7.8 per cent stake.

Through this partnership, Flipkart was to strengthen the range of brands offered on its e-commerce platforms Flipkart and Myntra.

PEERZADA ABRAR

# आय अनुमान में मजबूती से शेयरों में चमक

विश्लेषकों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 तक निफ्टी का ईपीएस 60 फीसदी बढेगा


समी मोडक मुंबई, 20 जनवरी

**प** Tविष्य का अनुमान लगाना कभी भी आसान नहीं । रहा। बाजार में किसी भी विश्लेषक से पूछकर देखिये। वे लगातार यह अनुमान लगाने में गलत साबित हुए हैं कि अगले दो वित्त वर्ष में निफ्टी की प्रति शेयर आय (ईपीएस) कितनी होगी।

वित्त वर्ष 2011 से आमसहमति वाले अनुमान ने हमेशा ही वास्तविक आय को ढेंगा दिखाया है। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2017 में दो साल आगे की अनुमानित आय बढोतरी 63 फीसदी थी। लेकिन वास्तविक आंकडे 19 फीसदी रहे, यानी अनुमान से काफी कम।

हालांकि यह सेल-साइड विश्लेषकों को अपना अनुमान घटाने के मामले में विचलित नहीं कर पाया है। उनका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 तक निफ्टी की आय 60 फीसदी से ज्यादा बढकर 730 रुपये पर पहुंच जाएगी। बढत का इतना ऊंचा अनुमान हासिल करना अहम है क्योंकि ऐसे उच्चस्तर पर निफ्टी का मूल्यांकन ऐतिहासिक औसत से ऊपर यानी 20 गुना होगा। मौजूदा वित्त वर्ष में यह इंडेक्स 450 रुपये से 490 रुपये के ईपीएस के बीच रह सकता है। ऐसे में बाजार एक बार फिर तेजी का नजरिया अपनाए हुए है ?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के खुदरा शोध प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, अगले दो वित्त वर्ष के लिए आमसहमति वाली आय में बढत



का अनुमान ऊंचा है लेकिन इसे इस संदर्भ में देखा जाना है। वित्त वर्ष 2017 व वित्त वर्ष 2020 के बीच और यहां तक कि वित्त वर्ष 2021 में निफ्टी ईपीएस में शायद ही कोई बढोतरी देखने को मिली है। ऐसे में आधार काफी नीचे है। साथ ही बढत की दर में संशोधन का मामला भी बनता है। वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 23 में 60 फीसदी की बढत के अनुमान से हम पीछे रह सकते हैं लेकिन जितनी बढत हम हासिल कर पाएंगे उसका अंतर काफी ज्यादा होगा।

निफ्टी या 100 अग्रणी कंपनियों की आय अनुमान की जब बात आती है तो बैंकिंग व ऊर्जा क्षेत्रों के पास इसकी कुंजी है। ज्यादातर विश्लेषकों ने वित्त वर्ष 22 व वित्त वर्ष 23 के लिए नवंबर में आय अनुमान में इजाफा किया है जब बैंकों ने चौंकाने वाले नतीजे घोषित किए।

आईडीबीआई कैपिटल के शोध प्रमुख ए के प्रभाकर ने कहा, पिछले पांच वित्त वर्ष में बढत एक अंकों में निचले स्तर पर रही है। ऐसे में ज्यादा बढत संभव है। लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या 60 फीसदी की बढ़त हासिल की जा सकती है। शायद काफी बडी कंपनियां ऐसा कर सकती हैं। लेकिन व्यापक बाजार और मिड व स्मॉल कैप 35 से 40 फीसदी तक की बढ़त देख सकते हैं।

विश्लेषकों ने बाजार के मौजूदा स्तर व बढत के अनुमान को देखते हुए कहते हैं कि शेयरों की कीमत पूरी है। हालांकि निकट भविष्य में इसका मतलब शायद नहीं रहेगा क्योंकि नकदी ज्यादा है।

आईडीएफसी म्युचुअल फंड के नोट में कहा गया है कि अल्पावधि (एक व तीन साल के बीच) में आय की रफ्तार और बाजार में काफी कम सह-संबंध देखा गया है। खबरों के प्रवाह या नकदी जैसे कारक अहम हैं। लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में आय की रफ्तार का शेयर व बाजार के रिटर्न के साथ सबसे ज्यादा सह-संबंध

## भारतीय कंपनियों को आगामी संकटों के लिए तैयार रहना चाहिए

बीएस संवाददाता मंबई. 20 जनवरी

आदित्य बिड्ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड्ला ने भारतीय कंपनियों से सतर्क रहने सभी वित्तीय मानकों को बनाए रखने को कहा है, जिससे कि वे कोरोना महामारी जैसे किसी भी संभावित संकट का प्रभावी तरीके से सामना कर सकें। हालांकि बिडला ने कंपनियों से कीमतों में भारी उतार-चढाव से चिंतित नहीं होने को कहा है, लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी तरह की गंभीर अनिश्चितताओं में न फंसें।

बिड़ला ने एक वेब पोस्ट में कहा कि जिस तरह से कोरोना ने बीमारियों (मधुमेह, अवसाद, उच्च रक्तचाप या मोटापा आदि) से जडे लोगों को ज्यादा प्रभावित किया, उसी तरह की स्थिति व्यवसायों के लिए भी लाग हो सकती है।

उन्होंने लिखा है, 'भले ही यह आंशिक रूप से लागु हो, लेकिन समस्याओं से जूझ रहे व्यवसाय 2008 के वित्तीय संकट जैसे झटकों से मुकाबला करने में कम सक्षम रहे हैं। लेकिन इसमें भी अंतर है। मानवीय परिस्थितियों के विपरीत, जो अक्सर हमारे नियंत्रण से परे होती हैं, व्यवसायों के लिए गंभीर समस्याओं के संदर्भ में कोई आनुवंशिक प्रवृति नहीं होती है। अत्यधिक कर्ज भले ही कुछ हद तक फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन दीर्घावधि में इससे बुनियादी आधार कमजोर होता है।'

'ये ऐसी



कुमार मंगलम बिड़ला, चेयरमैन, आदित्य बिड़ला समूह

समस्याएं हैं, जो उस स्थिति में घातक साबित हो सकती हैं, जब महामारी जैसे झटके व्यवस्था को अपनी चपेट में लेते हैं। ये खतरे अच्छे समय के दौरान नजरअंदाज हो जाते हैं और इसलिए कंपनियों के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियों के सिद्धांत के प्रति सजग रहना जरूरी है।'

(डब्ल्युएफएच) पर बिडला ने कहा कि चुंकि भारतीय उद्योग जगत कार्य स्थल पर लौटने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कार्य प्रणाली के भविष्य पर बडे सवाल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'कइयों का मानना है कि डब्ल्यूएफएच इस दशक का मेगा-ट्रेंड बनने जा रहा है। मेरा इसे लेकर कुछ अलग नजरिया है। आखिरकार 'ऑफिस' ही ऐसा स्थान नहीं है जहां हम कार्य कर सकते हैं।'

## बजाज फाइनैंस का मुनाफा 30 फीसदी घटा

बजाज फाइनैंस का शुद्ध लाभ दिसंबर तिमाही में 30 फीसदी घटकर 1,049 करोड रुपये रह गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,488 करोड रुपये रहा था। शद्ध ब्याज आय में गिरावट और प्रावधान में इजाफे का असर कंपनी के मुनाफे पर पडा। लेकिन कंपनी ने कहा है कि कर्ज के नुकसान वाले प्रावधान, ब्याज की वापसी और सरप्लस नकदी की लागत पहली तिमाही में

कोविड पूर्व के स्तर पर आ जाएगी, लिहाजा कंपनी का मुनाफा सुधरेगा।

कंपनी की शुद्ध ब्याज आय इस अवधि में 7.24 फीसदी घटकर 3,977 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 4,265 करोड़ रुपये रही थी। कंपनी की कुल आय भी एकल आधार पर 7 फीसदी घटकर 5,847 करोड रुपये रह गई। *बीएस* 

#### MAYUR UNIQUOTERS LIMITED Corporate Identification Number (CIN): L18101RJ1992PLC006952

Registered Office & Works: Village: Jaitpura. Jaipur-Sikar Road. Tehsii: Chomu. Jaipur-303704. Rajasthan I Tel No.: 01423-224001

Corporate Office: 28, 4th Floor, Lakshmi Complex, M.I. Road, Jaipur – 302001, Rajasthan I Tel. No.: 0141-2361132 Contact Person: Mr. Rahul Joshi, Company Secretary and Compliance Office Email: secr@mayur.biz | Website: www.mayuruniquoters.com

POST BUY BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

This public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 as amended from time to time (the "Buyback Regulations") This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated November 11, 2020 published on November 12, 2020 (the "Public Announcement") and the Letter of Offer dated December 17, 2020 (the "Letter of Offer"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer

#### 1. THE BUY BACK

- Mayur Uniquoters Limited (the "Company") had announced the Buyback of up to 7,50,000 (Seven Lakh Fifty Thousand) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 5/- (Rupees Five Only) each ("Equity Shares") from the existing shareholders/beneficial owners of Equity Shares holding Equity Shares as on the Record Date (i.e. November 25, 2020), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route through the Stock Exchange mechanism, as prescribed under the Buyback Regulations, at a price of Rs. 400/- (Rupees Four Hundred Only) per Equity Share payable in cash, for an aggregate amount of Rs. 30,00,00,000/- (Rupees Thirty Crores Only). excluding Transaction Cost ("Buyback Size"). The Buyback Size constituted 5.13% and 5.12% of the paid-up equity share capital and free reserves as per the latest standalone and consolidated audited balance sheet of the Company, respectively, for the financial year ended March 31, 2020 and was within the statutory limit of 10% under the Companies Act, 2013 (the "Act") and represents 1.65% of the total number of equity shares in the total paid-up equity share capital of the Company.
- The Company has adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular CIR/CFD POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, including any amendments or statutory modifications for the time being in force.
- The Buy Back Offer was kept open from Wednesday, December 30, 2020 to Tuesday, January 12, 2021

#### DETAILS OF THE BUYBACK

- 7,50,000 (Seven Lakh Fifty Thousand) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of Rs. 400/- (Rupees Four Hundred Only) per Equity Share
- The total amount utilized in the Buyback is Rs.30,00,00,000/- (Rupees Thirty Crores Only), excluding Transaction Cost.
- The Registrar to the Buy Back i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limited("Registrar"), considered 12,012 valid applications for 54,60,191 Equity Shares in response to the Buy Back offer resulting in the subscription of approximately 7.28 times The details of valid applications considered by the Registrar, are as follows:

Category	No. of Equity Shares Reserved in the Buyback	No. of Valid applications	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
Reserved category for Small Shareholders	1,12,500	10,772	11,36,694	1010.39%
General Category for all other Equity Shareholders	6,37,500	1,240	43,23,497	678.20%
Total	7,50,000	12,012	54,60,191	728.03%

All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer The communication of acceptance/ rejection will be dispatched by the Registrar to the eligible Equity Shareholders on or before Januar 22, 2021 (by email where the email id is registered with the Company or the depository).

The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited on January 20, 2021. The Clearing Corporation

has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If the Eligible Shareholders bank account details were not available or if the funds transfer instruction was rejected by Reserve Bank of India/Relevant Bank, due

Demat Fourity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company demat account on January 20, 2021. The unaccepted demat Equity Shares have been returned to the respective Eligible Shareholders by Clearing Corporations on January 20, 2021.

The extinguishment of 7,50,000 Equity Shares accepted under the Buy Back, all of which are in dematerialized form, is currently under process and shall be completed on or before January 27, 2021

The Company, and its respective directors, accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback

#### CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

The capital structure of the Company, pre and post Buy Back is as under:

No.		(As on the Record Date)		·		
		No. of Shares	Amount (Rs. Lacs)	No. of Shares	Amount (Rs. Lacs)	
1.	Authorized Share Capital	5,00,00,000 Equity Shares of Rs. 5/- each	2500.00	5,00,00,000 Equity Shares of Rs. 5/- each	2500.00	
		15,25,000 Compulsory Convertible Participating Preference Shares of Rs. 400/- each	6100.00	15,25,000 Compulsory Convertible Participating Preference Shares of Rs. 400/- each	6100.00	
		Total	8600.00	Total	8600.00	
2.	Issued, Subscribed and Paid up Capital	4,53,27,600 Equity Shares of Rs. 5/- each	2266.38	4,45,77,600 Equity Shares of Rs. 5/- each	2228.88	
		Total	2266.38	Total	2228.88	

Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted

Sr. No.	Name of Shareholder	Number of Equity Shares accepted under the Buyback	as a % of total Equity	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares <sup>(1)</sup>
1.	Suresh Kumar Poddar	2,36,225	31.50	0.53
2.	Manav Poddar	1,09,233	14.56	0.25
3.	Suresh Kumar Poddar and Sons (HUF)	46,695	6.23	0.10
4.	Kotak Funds - India Midcap Fund	25,459	3.39	0.06
5.	Malabar India Fund Limited	18,030	2.40	0.04
6.	Puja Poddar	10,827	1.44	0.02
7.	Bengal Finance & Investment Pvt. Ltd	9,886	1.32	0.02
8.	Kiran Poddar	9,374	1.25	0.02
9.	Arun Kumar Bagaria	8,277	1.10	0.02

(1) Subject to extinguishment of 7,50,000 (Seven Lakh Fifty Thousand) Equity Shares

The Shareholding Pattern of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Category of Shareholder	Pre Buyback (As on the Record Date)		Post Buyback <sup>(1)</sup>	
	Number of Shares	% to the existing Equity Share capital	Number of Shares	% to post Buyback Equity Share capital
Promoters and persons acting in concert (collectively "the Promoters")	2,78,67,239	61.48	2,74,40,664	61.56
Foreign Investors (Including Non-Resident Indians, FIIs, FPIs, Foreign Mutual Funds)	36,76,537	8.11	1,71,36,936 38.	38.44
Financial Institutions/Banks & Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	5,49,340	1.21	1,7 1,00,000	33.11
Others (Public, Public Bodies Corporate, etc.)	1,32,34,484	29.20		
Total	4,53,27,600	100.00	4,45,77,600	100.00

(1) Subject to extinguishment of 7,50,000 (Seven Lakh Fifty Thousand) Equity Shares MANAGER TO THE BUYBACK OFFER

#### CHARTERED CAPITAL AND INVESTMENT LIMITED 418-C. "215 Atrium". Andheri Kurla Road. Andheri (East), Mumbai 400 093

Contact Person: Mr. Amitkumar Gattani Tel No.: 022-6692 4111/6222 Email Id: mumbai@charteredcapital.net

Website: www.charteredcapital.net SEBI Registration No: INM000004018 | Validity: Permanent Corporate Identity Number: L45201GJ1986PLC008577

DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors accepts full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and for the information contained in all other advertisements, circulars, brochures, publicin materials etc. which may be issued in relation to the Buyback and confirms that the information in such documents contains and will contain true, factual and material information and does not and will not contain any misleading information

For and on behalf of the Board of Directors of Mayur Uniquoters Limited

Suresh Kumar Poddar Arun Kumar Bagaria Chairman and Managing Director & CEO Whole Time Director DIN: 00373862 DIN: 00022395

Rahul Joshi Company Secretary and Compliance Officer M. No: ACS33135

Date: Wednesday, January 20, 2021

# पेट्रो रसायन में सुधार, रिटेल से आरआईएल को मदद

जेपी मॉर्गन जियो प्लेटफॉर्म्स और जियो मार्ट पेशकशों पर रिलायंस के प्रबंधन के विचारों पर ध्यान देगी

निकिता वशिष्ठ

नई दिल्ली, 20 जनवरी

पेट्रो रसायन व्यवसाय में मजबूत सुधार, और रिटेल सेगमेंट में वृद्धि की मदद से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में तिमाही आधार पर शानदार वृद्धि दर्ज किए जाने की संभावना है। कंपनी द्वारा 22 जनवरी को अपनी तीसरी तिमाही घोषणा किए जाने की संभावना है।

विश्लेषक आरआईएल के समेकित शुद्ध लाभ में तिमाही आधार पर 32 प्रतिशत तक की उम्मीद जता रहे हैं और उन्होंने यह आंकडा 12,600 करोड रुपये रहने का अनुमान जताया है, जबकि वित्त वर्ष 2021 की सितंबर तिमाही में 9,567 करोड रुपये का कर-बाद लाभ (पीएटी) दर्ज किया गया था। जेपीमॉर्गन के विश्लेषकों ने वित्तीय परिणाम पूर्व रिपोर्ट में लिखा है, 'काफी कम ब्याज लागत और कर दर में लगातार गिरावट से तिमाही आधार पर पीएटी में करीब 32 प्रतिशत इजाफा होने की संभावना है। जहां तक कर-पूर्व लाभ की बात है तो यह सालाना आधार पर अभी भी कमजोर बना रह सकता है।' एक साल पहले की समान तिमाही में आरआईएल की कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) और शुद्ध लाभ 15,082 करोड़ रुपये और 11,640 करोड़ रुपये पर दर्ज किया गया था।



बोफा सिक्योरिटीज के विश्लेषक हालांकि अपने अनमानों को लेकर सतर्क बने हुए हैं और उन्होंने दिसंबर तिमाही के लिए शुद्ध लाभ 11,100 करोड रुपये रहने का अनुमान जताया है।

अप्रैल 2020 से, आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में करीब 33 प्रतिशत हिस्सेदारी वैश्विक निवेशकों को बेची है और 20 अरब डॉलर का नकदी प्रवाह हासिल किया है। वहीं, 2020 के अंत में रिलायंस रिटेल में करीब 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री से आरआईएल के लिए 6.4 अरब डॉलर की पूंजी हासिल हुई है।

एडलवाइस सिक्योरिटीज ने तिमाही दर तिमाही आधार पर 15.7 प्रतिशत से ज्यादा के पेट्रो रसायन एबिटा, 13 प्रतिशत के रिफाइनिंग एबिटा, और 34 प्रतिशत रिटेल एबिटा का अनुमान जताया है, जिससे 5.6 प्रतिशत के कमजोर दुरसंचार एबिटा की

कुछ हद तक भरपाई होगी। यहां सेगमेंट-आधारित विश्लेषण पेश किया जा रहा है।

#### ओ2सी व्यवसाय

पर 14 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। शानदार ग्राहक वृद्धि (तीसरी तिमाही में करीब पेटकेम व्यवसाय की मजबत रफ्तार से इस एबिटा को मदद मिलने की संभावना है। साथ ही उन्हें रिफाइनरी एबिटा काफी हद तक सपाट बने और सकल रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम) में कमजोर सुधार की उम्मीद है। इस बीच, गोल्डमैन सैक्स ने जीआरएम 6.5 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान जताया है जो 5.7 डॉलर से तिमाही आधार पर 0.8 डॉलर तक ज्यादा है। इससे कंपनी को रिफाइनिंग इस्तेमाल में सुधार लाने में मदद मिल रही है।

#### रिटेल

गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि त्योहारी सीजन की वजह से रिटेल स्टोर में ग्राहकों की आवक में सुधार से रिटेल राजस्व तिमाही आधार पर 47 प्रतिशत और सालाना आधार पर 10 प्रतिशत तक बढ सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है, 'हमें ग्रोसरी के लिए अच्छी

दूरसंचार बोफा को कुल ओ2सी एबिटा तिमाही आधार विश्लेषकों का कहना है कि जियो का एबिटा ा करोड) और ऊंचे एआरपीय ( 145 रुपये) की वजह से मजबूत रहने की संभावना है।

वृद्धि का अनुमान है, जबकि फैशन और

इलेक्ट्रॉनिक के लिए वृद्धि सालाना आधार

पर सपाट बनी रहेगी। हमें प्रमुख एबिटा तिमाही आधार पर 31 प्रतिशत बढने की

बोफा की रिपोर्ट में कहा गया है, 'हमें तिमाही आधार पर एआरपीय में वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर, जियो तिमाही आधार पर 3.6 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज कर सकती है। वहीं एबिटा मार्जिन तिमाही आधार पर 14 आधार अंक सुधरकर 43.7 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।'

#### शेयर का प्रदर्शन

आरआईएल का शेयर सितंबर 2020 के मध्य से 17 प्रतिशत चढा है और वह निफ्टी के कमजोर रहा है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि लगातार तिमाही आधार पर आय में सुधार के साथ साथ दूरसंचार दर वृद्धि, नई उत्पाद पेशकशों और संभावित ऊर्जा व्यवसाय हिस्सेदारी बिक्री से प्रदर्शन में सुधार लाने में मदद मिल सकती है।

पिछले साल की समान अवधि में बैक का शुद्ध लाभ 440 करोड़ रुपये रहा था। बैंक का शेयर आज बीएसई पर 1.46 फीसदी की बढ़त पर कारोबार कर रहा था।

बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्याम श्रनिवासन 1.28 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

# इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के लिए सीमेंस संग ओला की साझेदारी

नई दिल्ली. 20 जनवरी

ओला ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु के इलेक्ट्रिक वाहनों के आगामी विनिर्माण संयंत्र के लिए उसने सीमेंस संग साझेदारी की है। यह ऐलान उस घटनाक्रम के बाद हुआ है जिसके तहत मोबिलिटी फर्म ने पिछले महीने पहली फैक्टरी लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ 2,400 करोड़ रुपये के

सौदे की घोषणा की थी। इस फैक्टरी में करीब 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और शुरुआती क्षमता 20 लाख कार सालाना की होगी।ओला ने एक बयान में यह जानकारी दी। यह ओला के वैश्विक विनिर्माण केंद्र के तौर पर काम करेगा, जहां से भारत के ग्राहकों के अलावा प्रमुख बाजारों यूरोप, ब्रिटेन, लैटिन अमेरिका और एएनजेड की जरूरतें पूरी की जाएगी।

ओला की फैक्टरी में करीब 5,000



पहुंच सीमेंस के इंटिग्रेटेड डिजिटल ट्विन डिजायन व विनिर्माण समाधान तक होगी। ओला के चेयरमैन व ग्रुप सीईओ भाविश अग्रवाल ने कहा, यह हमारा वैश्विक केंद्र होगा और गुणवत्ता आदि के मामले में बेंचमार्क तय करेगा और इस तरह से अत्याधुनिक उत्पाद बनाने के मामले में भारत की काबिलियत का प्रदर्शन करेगा। आगामी महीनों में हम इस फैक्टरी को ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे और ग्राहकों के सामने

यह फैक्टरी ओला के प्रोप्राइटरी

अपने उत्पाद रख देंगे।

एआई ईंजन व टेक स्टैक के साथ कृत्रिम बौद्धिकता से लैस होगी। ओला की फैक्टरी में मैटीरियल से जुड़े सारे काम स्वचालित होंगे यानी कच्चे माल से लेकर फैक्टरी में इसकी आवाजाही, स्टोरेज और प्रॉडक्शन लाइन से तैयार स्कुटर निकालने व उसे ट्रकों पर लादने का काम स्वचालन के जरिए होगा।

सीमेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक व सीईओ सुनील माथुर ने कहा, इंडस्ट्री 4.0 में सीमेंस वैश्विक स्तर पर अग्रणी है और ओला की तरफ से हमारे ऑटोमेशन व डिजिटल अनुभव के जरिए फैक्टरी लगाने की कल्पना में योगदान को लेकर हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। इससे उच्चस्तर की उत्पादकता व गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।

साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग समेत विनिर्माण तकनीकों में ऑटोमेशन व डेटा एक्सचेंज और स्मार्ट फैक्टरी बनाने के मौजूदा ट्रेंड का नाम इंडस्ट्री 4.0 है।

मुनाफा घटा निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक का शुद्ध मुनाफा दिसंबर तिमाही में 8 फीसदी घटकर 404 करोड़ रुपये रह गया। प्रावधान में बढ़ोतरी के कारण मुनाफे पर असर पड़ा।

फेडरल बैंक का

ने कहा, बैलेंस शीट में मजबूती के लिए प्रावधान में हुई बढ़ोतरी का असर शुद्ध लाभ पर पडा। तिमाही में प्रावधान दोगुने से ज्यादा बढकर 420.62 करोड रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 180.86 करोड़ रुपये रहा था। प्रावधान कवरेज अनुपात सुधरकर 77.1 फीसदी पर पहुंच गया, जो पहले 45.30 फीसदी रहा था। बैंक की शुद्ध ब्याज आय इस अवधि में 1,437 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो पहले 1,155 करोड़ रुपये रही थी। तिमाही में बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन 22 आधार अंक बढ़कर 3.22 फीसदी पर पहुंच गया। बैंक का सकल एनपीए 3.38 फीसदी रहा, जिसमें वैसा एनपीए शामिल है जो सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण एनपीए को तौर पर नहीं पहचाना गया है। इस दौरान बैंक का शुद्ध एनपीए 1.14 फीसदी रहा। दिसंबर में समापप्त 12 महीने की अवधि में कुल उधारी छह फीसदी बढ़कर

## लाइट बंद करने की बात पर सब्जी विऋेता और एलईडी कारोबारी में जमकर चले चाकू, एक की मौत, दूसरा गंभीर

शहर के शिप्रापथ इलाके में मंगलवार रात को मामूली कहासुनी पर हुई चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि दूसरा पंभीर घायल हो गया। मामले में शिप्रापथ पुलिस ने दोनों पक्षों के तीन लोगों को हत्या व हत्या के प्रयास और चौथे आरोपी को शांतिभंग के मामले में गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पड़ताल में झगड़े की वजह सब्बी मंडी में सब्बी के ठेले पर लाइट बंद करने को लेकर सामने आई है। डीसीपी साउथ हरेंद्र महावर ने बताया कि शिपापथ इलाके हरद्र महावर न बताया कि रिश्रापय इलाक में वीटी रोड पर हर मंगलवार को अस्थाई सब्जी मंडी लगती है। यहां सोनू उर्फ सुनील और उसके साथी फल-सब्जी विक्रेताओं आर उसक साथा फल-स्वन्धा विकाशना को एलईडी लाइट और बैटरी उसलब्ध करवाते हैं। रोजाना एक बैटरी लाइट के हिसाब से 20 से 30 रुपए किराया वसूलते हैं। इसी मंडी में चाक्बाजी में मारा गया सुरेश उर्फ बाबू और उसका भाई मोहनलाल सब्बी का ठेला लगाते हैं।

#### पुलिस ने कहा-लाइट बंद करने को लेकर हुई चाकूबाजी

मंगलवार रात को करीब 9<sup>-30</sup> बजे सोनू अपने साथियों के साथ सब्जी विक्रेताओं से लाइट और बैटरी लेने पहुंचा। वहां मोहनलाल और उसके भाई सरेश उर्फ



बाबू से लाइट बंद कर लौटाने को कहा। तब दोनों भाईयों ने सोनू से कहा कि कुछ देर बाद लाइट बंद कर देंगे। तब तुम ले जाना। यह भी बताया जा रहा है कि सोन ने दोनों भाईयों से 80 रुपए किराया भी मांगा। वहीं भाइया स 80 रुपए किराया मा माना वहा, सब्बी विक्रेता सुरेश व मोहनलाल ने सोनू को 75 रुपए देने को लेकर तैयार थे। इस बीच कहासुनी होने पर सोनू उर्फ सुनील ने सुरेश के ठेले पर लगी लाइट बंद कर उतार ली। इससे दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया सबइंस्पेक्टर अमर सिंह के मुताबिक प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि सबसे पहले मृतक सुरेश के भाई मोहनलाल ने ठेले पर रखें सब्बी काटने के चाकू से सोनू पर हमला कर दिया। इसके बाद सुनील उर्फ सोनू ने भी चाकू उठा लिया। उसके दो साथी राजाराम मीणा व रवि शर्मा भी आ गए। तब दोनों पक्षों ने चाकूबाजी शुरु कर दी। इसमें मोहनलाल के भाई सुरेश और दूसरे पक्ष के सोनू उर्फ सुनील गंभीर घायल हो गए। वे

विभागों में उपभोक्ताओं को

ऑनलाइन सुविधा देने को कहा था। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने 8 अक्टूबर 2020 को उपभोक्ताओं को पेयजल कनेक्शन के लिए

पीएचईडी की ओर से बनाए

पाएचइडा का जार स बनाए राजनीर पोर्टल विकसित कर एप लांच किया था। पहले चरण में ऑनलाइन कनेक्शन की सुविधा

जगतपुरा, मालवीयनगर, विद्याधर

नगर, झोटवाड़ा व मुरलीपुरा में शुरु की गई थी।यह सुविधा चरणबद्ध रूप से प्रदेश में लागू की

जानी थी। इसके लिए उपभोक्ता

को स्वयं की एसएसओ आईडी

मीटर, ट्रेनों की रफ्तार

लहूलुहान हालत में वहीं गिर पड़े। इससे वहां अफरा तफरी मच गई।

#### झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया

सब्दंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि रात को झगड़े की सूचना पर वे पुलिस जावा लेकर मौके पर पहुँचे। वहां स्थानीय लोगों की मदद से घायल सुनील उर्फ सोनू व सुरेश को धनवंतरी अस्पताल पहुँचाया। उनकी हालत गंभीर होने पर एसएमएस अस्पताल गहुंचाया। जहां बुधवार को सुरेश उर्फ बाबू ने दम तोड़ दिया। मृतक सुरेश भोपाल में छोला क्षेत्र का रहने वाला है।

#### पुलिस ने दोनों तरफ के चार लोगों को गिरफ्तार किया

DRUGAIC IDDII
हत्या व जानलेला हमले की इस वारदात में
हत्या व जानलेला हमले की इस वारदात में
गिरफ्तार किया है। जिसमें घायल हुए सोन्
और उसके पक्ष के आरोपी रवि शर्मा (192) के
गिरखावरा, आरोपी राजराम मीणा (22) के
खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार
क्या है। वहाँ, सोन् के साथी तीसरा आरोपी
सुखदेल गोस्वामी (50) मदरापपुरा, मुहाना
को आर्तिभम में गिरफ्तार किया है। वहाँ, इसेर)
थे में मुक्त सुरेश के भाई मोहन्तदास जेवानी
(35) की हत्या के प्रयास के मुकदमे में
गिरफ्तार किया है।

#### वित्तीय अधिकारों में कटौती का विरोध-आज प्रदेश की ११ हजार ग्राम पंचायतों में तालाबंदी



जयपुर ( कासं )।

राजसंस्थाओं वित्तीय अधिकारों में कटौती के विताय आधिकारा में कटाता के विरोध में प्रदेश की 11,316 ग्राम पंचायतों पर गुरुवार को तालाबंदी रहेगी। इन ग्राम पंचायतों में कोई काम नहीं होगा। दरअसल, कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने ग्राम पहेंचा राज्य सरकार न प्राम पंचायतों के खातों को पीडी खातों में परिवर्तित करने के निर्देश जारी किए थे। इसी के विरोध में प्रदेशभर के सरपंच लामबंद हो चुके हैं। बुधवार को सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने वित्त विभाग क जायकारपा के साथ बातचीत की थी, लेकिन यह बेनतीजा रही। संघ ने कहा कि मुलाकात में पीड़ी खातों में नुशिक्षित में चीडी खोता में शिथिलता देने के मुद्दे पर सरकार की ओर से आश्वासन मिला है। हालांकि, तालाबंदी जारी रहेगी। बता दें कि पिछले एक हफ्ते से राज्य के सरपंच अलग-अलग मंचों से अपनी जिला-जिला में यो से जपना मांग राज्य सरकार के समक्ष रख चुके हैं। राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते एक आदेश जारी करके सरपंचों के नेशनलाइज्ड बैंक में चल रहे खातों की जगह अपने नियंत्रण वालें खातों से लेन-देन की व्यवस्था की है। ये खाते सरकारी ट्रेजरी से अटैच हैं और ब्याज रहित

#### व्यवस्थाओं के तहत हैं। इसी का विरोध सरपंच कर रहे हैं। पंचायतों के हक कुचल रही

है सरकार - राठौड़ केंद्रीय व राज्य वित्त ग्रोग के पैसों को पीडी जापान के पत्ता का पांडा खातों में डालकर ग्राम पंचायतों के हक को कुचलने का प्रयास हो रहा है। राज्य सरकार कह रही है कि इसे केंद्र के निर्देश पर किया है। पर ऐसा आदेश आया ही नहीं।

-राजेंद्र राठौड, उपनेता

## प्रदेश के 431 में से 5 उपखंडों में ही पेयजल कनेक्शन के आ रहे हैं ऑनलाइन आवेदन

प्रदेश में जलदाय विभाग के 431 उपखंड है, लेकिन केवल पांच उपखंड में ही पेयजल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। शेष 426 सबडिवीजनो में उपभोक्ताओं को कनेक्शन की फाइल बनाने व आवेदन करने सहित अन्य कामकाज ऑफलाइन करना पड़ता है। इससे विभाग में कनेक्शन माफिया पन रहा है। जबकि प्रदेश के बिजली जबिक प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को पांच साल पहले से ही बिजली मित्र व वेबसाइट के जरिए कनेक्शन आवेदन का काम आर्र करावस्ता जावस्त का कान ऑनलाइन हो रहा है। प्रदेश में पेयजल कनेक्शन आवेदन व बिलिंग ऑनलाइन करवाने की जिम्मेदारी डब्ल्युएसएसओ विंग व चीफ इंजीनियर (ग्रामीण) व चीफ इंजीनियर (शहरी) की जिम्मेदारी है। नोडल इंचार्ज डब्ल्यूएसएसओ विंग के निदेशक है। काम की

धीमी गति होने के बावजूद ठेकेदा फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

की गई है।
जलदाय विभाग व डीओआईटी के
बीच तालमेल नहीं होने का
खामियाजा उपभोक्ताओं को
भुगतना पड़ रहा है। विभाग के
चीफ इंजीनियर (शहरी) सीएम
चौहान का कहना है कि कनेक्शन
व विर्णिग अर्गनलाइन करने का काम चल रहा है। जल्दी ही पूरे प्रदेश में यह सुविधा मिलने लगेगी।

आवेदन के बाद एईएन की ओर से उपायदेन का जार स्व दस्तावेजों की जांच की जानी है। इसके बाद जेईएन मौके पर जाकर एप पर साइट रिपोर्ट ऑनलाइन ही दे सकता है। रोड कट होने पर शुल्क की रसीद को स्कैन कर एप पर अपलोड करना होगा। इसके बाद एप या वेबसाइट पर ही ऑनलाइन तरीके से डिमांड नोटिस जारी हो जाएगी। डिमांड नोटिस की राशि जमा होते ही कनेक्शन

का स्वयं का एसएसआ आईडा बना कर ऑनलाइन ही आवश्यक प्रविष्टियां कर वांछित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां अपलोड करनी है। उपभोक्ता अपने कंप्यटर, मोबाइल, लेपटॉप या ई मित्र के जरिए नल कनेक्शन वे लिए आवेदन कर सकता है। सुबह कोहरा, विजिबिलिटी ५०

> धीमी, पारा १० लुढ़का जयपुर (कासं)। पटोंदा/जतनगलाइन दिनों क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह शाम को पड़ रही तेज सदी नुबह राजि की पड़े रहा तज सदा ने लोगों को ठिदुराया हुआ है। बुधवार को क्षेत्र में सुबह करीब 9 बजे तक घने कोहरे का असर रहा। कोहरे के कारण वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर रास्ता तय करना पड़ा। दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर संचालित ट्रेनों को धीमी गति से निकाला गया। सर्दी से बचने के लिए जगह-जगह लोग अलाव जलाकर तापते हुए नजर आए। बुधवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री व न्यनतम ९ डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिक डॉ. एमके नायक ने बताया कि गुरुवार को पूर्वानुमान के तहत मौसम साफ रहने के साथ सुबह और शाम को मध्यम से घने सुबह आर शाम को मध्यम स धन दर्जे का कोहरा व शीतलहर की संभावना रहेगी शाहर में बुधवार को सुबह कोहरे के कारण सड़कों पर दृष्टया काफी कम थी। इससे वाहनों की रफ्तार थम गई। कई जगह पर जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना

भी करना पडा।

## सीएम जन आवास योजना में जोड़ा नया प्रावधान

#### बिल्डर या निकाय अब खुद की जमीन पर बना सकेंगे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर

जयपर (कासं)। प्रदेश में 2015 से लागू सीएम जन आवास योजना में सरकार ने नया प्रावधान जोडा है। सीएम जन आवास योजना के 4 मॉडल्स है। इनमें से अपनी खुद की जमीन पर बिल्डरों और निकायों द्वारा विकसित किए जाने वाले भूखंडों, योजनाओं को लेकर प्रावधान 3 है।

इसमें 3 ए और 3 बी पहले से ही हैं। अब इसमें नया प्रावधान 3 सी गया है। इसके अनुसार कोई | गया है। इसके अनुसार कोई | बिल्डर या अरबन बोडी | अपने क्षेत्र में अपनी ही जमीन पर ईडब्लुएस या एलआईजी प्लाट्स या मकान निर्मित करना चाहते हैं। वे खुद की जमीन पर सीएम जन आवास योजना के प्रावधानों के तहत उसे विकसित कर सकेंगे। इसके लिए ग्राउंड के साथ एक मंजिल तक ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवास बनाए जा सकेंगे। इसके अन्य तकनीकी व दूसरे प्रावधान योजना के तीसरे दूसर प्रावधान याजना के तासर मॉड्यूल की तरह ही रहेंगे। यदि कोई विकासकर्ता या बिल्डर प्रावधान 3 सी के तहत ईडब्लुएस

पत्रकार अभिषेक सोनी हत्याकांड

जयपुर (कासं)। शहर के मानसरोवर इलाके में गोपालपुरा बाईपास पर 9 दिसंबर 2020 को पत्रकार अभिषेक सोनी हत्याकांड में फरार आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। वारदात के बाद गिरफ्तारी के डर

त्राजा नरसार कर राजा वार्यस्य के बाद राजसार के अह से आरोपी जयपुर छोड़कर भाग निकला था। इसके बाद एक ट्रक पर खलासी बनकर काम कर रहा था। इस दौरान वह महाराष्ट्र व गुजरात भी रहा। करीब एक महीने बाद वह छिपते हुए जयपुर जिले के फागी इलाके में अपने गांव पहुंचा। जहां



या एलआईजी योजना लाता है तो उनकी जमीन के भू उपयोग परिवर्तन चार्ज में 100 प्रतिशत माफी रहेगी। टाउनशिप लाते हैं तो एक्सटर्नल डवलपमेंट उनको देने होंगे। जैसे एप्रोच रोड या बिजली कनेक्शन आदि के चार्ज भुगतान करना होगा। उनको बिल्डिंग प्लान एप्रुवल फी से भी 100ब माफी रहेगी। एफएआर एरिया की बाध्यता इन पर लागू नहीं होगी। स्पलिट लोकेशन की पात्रता भी लाग नहीं होगी। इन योजनाओं भी टाउनशिप पॉलिसी के तहत छूट

मिलेगी।

योजना में ये प्रावधान रखने

माड्यूल 3 सी के तहत ग्राउंड कवरेज 70ल तक रखना होगा। ईंडब्लुएस और एल्आईजी में 1.5 मीटर का फंट सेटबेक रखना होगा। अन्य साइड में जीरो सेटबेक रख सकेंगे। इन आवासों के लिए ईडब्लुएस के लिए 1 मोटरसाइकिल की तथा एलआईडी के लिए 2 बाइक जितनी पार्किंग रखनी होगी। ये योजनाएं 9 मीटर चौड़ी रोड पर ला सकेंगे।

खलासी बनकर राजस्थान से बाहर काट रहा था फरारी, एक महीने बाद घर लौटा तो पकडा गया आरोपी का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि वारदात में शामिल नामजद आरोपी शंकर चौधरी को 17 मानसरोवर थानाप्रभारी दिलीप सोनी के निर्देशन में स्पेशल भानसरावर बापाधभारा (दालां साना का नदशन न स्थाल टीम के हेडकारेटेबल हरिजोग सिंह चींबरी, कारेटेबल श्रीनारायण, नेमीचंद, राजू व चंद्रपाल की टीम ने मुखबिर से मिली सुचना के आधार पर कानायम के स्पे में दिवस दी। उसे आज पिरमता कर लिया। पत्रकार अभिषेक से अपनी परिचित लड़की के साथ 9 दिसंबर की रात को दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इससे कानाराम घबरा गया। वह गांव से भागकर अजमेर रोड पहुंचा। वहां हाइवे से गुज रहे एक ट्रक चालक के संपर्क में आया। तब कानाराम ट्रक ड्राइवर से कहा कि वह गरीब परिवार से है। मां-बाप ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। इसलिए काम की तलाश

गोपालपरा बाइपास पर एक ढाबे पर खाना खाने रुका था। ता वाहक सवार तीनों आरोपी भी ढांबे पर सामान खरीदने रुके। उन्होंने अभिषेक के साथ मौजूद लड़की को गलत नजरों से देखा तो अभिषेक की तीनों आरोपियों से कहासुनी हो गई। इस पर तीनों युवक बाइक लेकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद वे वापस आए और अभिषेक सोनी पर हमला कर दिया। जिसमें अभिषेक के सिर पर गंभीर चोटें आई। उपचार के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई।

#### रेलवे की मनमर्जी: दिल्ली से जयपुर के लिए एक्सप्रेस ट्रेन में सुपरफास्ट ट्रेन की तुलना में 500 रु. महंगा टिकट

जबपुर (कारों)। पिछले साल पुर विश्व कोरोना हो परेशान रहा। हर क्षेत्र में इस महामारी का नकारासफ उसर बेरानो को मिल है, लेकिन रेल्वें के लिए ये एक वरदान साबित हुई है। ऐसा इसलिए कपीकि रेलवे झारा इसकी आड़ में ट्रेन संचातन को सनमाने रवेंगे से ऑपरेट किया जा रहा है। कभी ट्रेनों के संदीप्रत कम किए जा रहे हैं, तो कभी उनके संचातन समय में बदलाव किया जा रहा है। तो वहीं कोरोना से पहले चार रहीं लोकर ट्रेनों को मेल एक्सोर में अपडोड कर कम दूरी की लोकर ट्रेनों की उपधीवन बंद कर दिया गया है। इस तो तम इंज बर रेलवें झारा प्रत्योग देन में अपना दरी कि दिया आपरास्त्र के की शासित कारण सम्मान जा से में क्ष्मी सम्बारण के किस की प्रति के स्वार लाकर दुना का भरापुरास्त्रित ने अधाव कर की बूद का लाकर दूना का आधाना बब कर बच्चा था हा बहु ता ला कर बात रहा बहु परकारत हो में महत्त्र वह कि ऐसु प्रास्त्रकट हो भी अधिक प्रधान बहुना जा वह हो रूपने बहुन कहा है के लिए यहें है ने नवित्ता की जा रही है। पहले अलावजत परकारेज और दूरही अझम सुमरमारटा आअम सुमरमारट हो नवीर मोक्सन के रूप में स्वाई हा रही है, इस्तिर सुमरमार होने के बावजूद इस हेन में क्यूपुर-सिक्की के बीच वह ऐसी में कि विक्त 10 कर पर किराया तथा रहा है, जबकि आवास्त्रस्तर प्रकारत होने फैटरवान रोकार के तो पर बात रही हैंदिसी एसकोरत होने के बावजूद 100 करण किया तथा वहा है, जबकि रेसचे द्वार प्रकारत और सुमरमारट होने में मेंशा एकसोस की तुनना में अधिक किराया दिया जाता है। फिराशनर इसका उनट हो रहा है,

### MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

processor Hoad, Teheli: Chomu, Jajane 303704, Rajagishtan I Tel No. 01423 il Complex, M.I. Road, Jajane 302001, Rajashtan I Tel. No. 0141-2361132 Rahul Joshi, Company Secretary and Compliance Officer mayur biz Websie: www manu-mise.

- or the user national or deputy and are an in the lose placety openly as the Capitary has adopted the Tender Office route for the purpose of the Bulpack. The Bulpack was implemented us for acquisition of shares through Stock Exchanger notified by Socurities and Exchange Board of India (SEBP) vid POLICYCELL / 1005 dated April 12, 2016 read with SEBI Circuit CPDIDCR2/CIRP/2016/131 dated December 9, amendments or statutory modifications for the time being in force.

- The Registrar to the Buy Back is. Beetal Financial & Computer Services Private Limited ("Registrar"), considered 12,01 applications for 54,60,191 Equity Shares in response to the Buy Back offer resulting in the subscription of approximately 7,20 The details of valid applications considered by the Registrar, are as follows:

Category	No. of Equity Shares Reserved in the	No. of Valid applications	Total Equity Shares Validly	% Response
	Buyback		Tendered	
Reserved category for Small Shareholders	1,12,500	10,772	11,36,694	1010.39%
General Category for all other Equity Shareholders	6,37,500	1,240	43,23,497	678.20%
Total	7,50,000	12,012	54,60,191	728.03%

- nat Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company demat account on, nat Equity Shares have been returned to the respective Eligible Shareholders by Clearing Corpo
- The extinguishment of 7,50,000 Equity Shares accepted under the Buy Back, all of which are in dematerialized form, is currently un process and shall be completed on or before January 27, 2021.
- The Company, and its respective directors, accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buy
- The capital structure of the Company, pre and post Buy Back is as unc

5,00,00,000 Equity Shares of Rs. 5/- each 5,00,00,000 Equity Shares

Preference Shares of Rs. 400/- each 8600.00 4,45,77,600 Equity Shares of Rs. 5/- each 4,53,27,600 Equity Shares of Rs. 5/- each 2266.38

(1) Subject to extinguishment of 7,50,000 (Seven Lakh Fifty Thousand) Equity Sh

3.2 Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares under the Buyback Offer are as under:

Sr. No.	Name of Shareholder	Number of Equity Shares accepted under the Buyback	as a % of total Equity	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares <sup>(1)</sup>
1.	Suresh Kumar Poddar	2,36,225	31.50	0.53
2.	Manav Poddar	1,09,233	14.56	0.25
3.	Suresh Kumar Poddar and Sons (HUF)	46,695	6.23	0.10
4.	Kotak Funds - India Midcap Fund	25,459	3.39	0.06
5.	Malabar India Fund Limited	18,030	2.40	0.04
6.	Puja Poddar	10,827	1.44	0.02
7.	Bengal Finance & Investment Pvt. Ltd	9,886	1.32	0.02
8.	Kiran Poddar	9,374	1.25	0.02
9.	Arun Kumar Bagaria	8,277	1.10	0.02

Category of Shareholder	Pre Buyback (As on the Record Date)		Post	Buyback <sup>(1)</sup>
	Number of Shares	% to the existing Equity Share capital	Number of Shares	% to post Buyback Equity Share capital
Promoters and persons acting in concert (collectively "the Promoters")	2,78,67,239	61.48	2,74,40,664	61.56
Foreign Investors (Including Non-Resident Indians, FIIs, FPIs, Foreign Mutual Funds)	36,76,537	8.11	1,71,36,996	38.44
Financial Institutions/Banks & Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	5,49,340	1.21		0
Others (Public, Public Bodies Corporate, etc.)	1,32,34,484	29.20		
Total	4,53,27,600	100.00	4,45,77,600	100.00

MANAGER TO THE BUYBACK OFFER



#### CHARTERED CAPITAL AND INVESTMENT LIMITED

DIRECTORS' RESPUNDING.

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors acceptance in the Buyback Regulations, the Board of Directors acceptance in the Regulation to the Information contained in all other advert materials etc. which may be issued in relation to the Buyback and confirms that the information and acceptance is actually and material information and does not and will not contain any misleadic information and acceptance. I imited

#### and on behalf of the Board of Directors of Mayur Uniquoters Limited

पुर्वावित से मिली सूचना के आधार पर मानसरोवर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी (साउथ) हरेंद्र महावर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कानाराम चौधरी (22) गांव चोरु, थाना फागी जयपुर जिले वह राजस्थान से बाहर ही रहा। घटना को करीब 1 ना चेह राजाना से जाहर के हा चटन का कराजा महींने से ज्यादा वक्त गुजरंत पर कानाराम को लगा कि अब वह परिवार से मिलने जा सकता है। इसलिए वह जयपुर में परिवार से मिलने के लिए चोरी छिपे अपने घर पहुंचा। तब

जेत कर सबाहि गंजानकारी के अनुसार ट्रक चालक ने सहानुभृति दिखाते हुए कानाराम को ट्रक में खलासी रख लिया। तब से कानाराम ट्रक में खलासी का काम कर रहा

Place: Jaipur Date: Wednesday, January 20, 2021